



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 चैत्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 226) पटना, सोमवार, 21 मार्च 2016

सं0 मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद्-05/2016—391
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संकल्प

18 मार्च 2016

विषय:—जन शिकायत कोषांग से संबद्ध सभी स्तरों के सृजित पदों (कार्यरत बल सहित) को सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानान्तरित करने की स्वीकृति।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत जन शिकायत कोषांग को सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप एवं राज्य के आम जनों के शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निष्पादन हेतु वर्तमान में अधिनियमित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा 13 (1) के अन्तर्गत गठित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली, 2016 के नियम 21 के अन्तर्गत कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का दायित्व भी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को दिया गया है।

2. आम जनों से जुड़े जन समस्याओं के निवारण के लिए राज्य स्तर पर बेहतर अनुश्रवण हेतु किसी एक विभाग के अन्तर्गत ही अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि आम जनों से प्राप्त शिकायतों का प्रभावी रूप से अनुश्रवण कर निवारण किया जा सके।

3. अतः राज्य सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त पूर्व में मंत्रिमंडल सचिवालय विभागान्तर्गत कार्यरत जन शिकायत कोषांग से संबद्ध सभी स्तरों के सृजित पदों (कार्यरत बल सहित) को सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानान्तरित किया जाता है ताकि राज्य स्तर के सभी जन शिकायतों का अनुश्रवण एवं निवारण एक ही विभाग के द्वारा किया जा सके।

4. यह आदेश तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

आदेश :—इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 226-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>